

इटावा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित एवं 25 हजार रू0 के इनामी अभियुक्त को अवैध असलहा एवं 01 अन्य साथी सहित किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित एवं 25 हजार रू0 के इनामी अभियुक्त को अवैध असलहा एवं उसके एक अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20/21.11.2020 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चैकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना बकेवर पुलिस द्वारा कस्बा बकेवर चौराहे पर सदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित एवं 25 हजार रू0 का इनामी अभियुक्त लुधियानी चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खडा है। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम मुखबिर के साथ उसके बताये गये स्थान लुधियानी चौराहे पर पहुंची तभी मुखबिर द्वारा अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह वही वांछित एवं इनामी अभियुक्त है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुए जिसके संबंध में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह थाना बकेवर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 25 हजार रू का इनामी अभियुक्त है।

उक्त अभियोग में वांछित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर नगला हीरे थाना बकेवर से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 597/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सोनू यादव पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला हीरे थाना बकेवर इटावा।
2. दिनेश कुमार यादव पुत्र राजवीर निवासी नगला हीरे थाना बकेवर इटावा।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस।

आपराधिक इतिहास-

1.सोनू यादव पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला हीरे थाना बकेवर इटावा।

1. मु0अ0सं0 411/13 धारा 323,504,506 भादवि थाना भरथना
2. मु0अ0सं0 249/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल
3. मु0अ0सं0 129/14 धारा 307,504 भादवि थाना इकदिल
4. मु0अ0सं0 451/19 धारा 147,307,504,506 भादवि थाना बकेवर
5. मु0अ0सं0 459/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर
6. मु0अ0सं0 457/20 धारा ¾ जुआ अधि0 थाना बकेवर
7. मु0अ0सं0 565/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बकेवर
8. मु0अ0सं0 597/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर

2.दिनेश कुमार यादव पुत्र राजवीर निवासी नगला हीरे थाना बकेवर इटावा।

1. मु0अ0सं0 457/20 धारा ¾ जुआ अधि0 थाना बकेवर
2. मु0अ0सं0 565/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बकेवर

पुलिस टीम- निरी0 श्री अंजन कुमार सिंह, उ0नि0 श्री दर्शन सिंह. उ0नि0 प्रशांत कुमार द्विवेदी, हे0का0 बृजमोहन, का0 नीरज कुमार।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा